

प्रेस नोट दिनांक 17-02-2021

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है, कि थाना नानौता पर दिनांक 16.02.2021 को वादी श्री अजय पुत्र सतपाल नि० ग्राम टिकरौल थाना नानौता जि० स०पुर द्वारा अपने भाई मृतक अक्षय उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र सतपाल नि० ग्राम टिकरौल थाना नानौता जि० स०पुर की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर शव को तालाब में डालने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 54/2021 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना नानौता पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 17.02.2021 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा उक्त घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभि० 1.सोनू पुत्र जगवीर सिंह नि० ग्राम टिकरौल थाना नानौता जि० स०पुर 2.इन्द्रवीर पुत्र सुरेन्द्र नि० ग्राम टिकरौल थाना नानौता जि० स०पुर को समय प्रातः 09:45 बजे ग्राम टिकरौल से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर अभियुक्त इन्द्रजीत उपरोक्त ने बताया कि महक सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली हाल निवासी ग्राम टिकरौल थाना नानौता जिल सहारनपुर, जो मेरे सगे मामा है, के भाई की लडकी को मृतक अक्षय की बहन का देवर भगाकर ले गया था तभी से आपसी रंजिश चली आ रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा० न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभि०गण का नाम व पता:-

- सोनू पुत्र जगवीर सिंह नि० ग्राम टिकरौल थाना नानौता जि० स०पुर।
- इन्द्रवीर पुत्र सुरेन्द्र नि० ग्राम टिकरौल थाना नानौता जि० स०पुर।

घटना का अनावरण / गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष श्री सोवीर नागर थाना नानौता, स०पुर।
- 2.उ०नि० श्री कुंवरपाल सिंह थाना नानौता, स०पुर।
3. उ०नि० श्री रामस्नेही थाना नानौता, स०पुर।
- 3.है०का० 82 संजीव कुमार थाना नानौता, स०पुर।
- 4.का० 1212 सोनू कुमार थाना नानौता, स०पुर।
- 5.का० 1656 प्रवीण कुमार थाना नानौता, स०पुर।
- 6.हो०गा० 2077 सतीश शर्मा थाना नानौता, स०पुर।